

प्रेस नोट दिनांक-15.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 07/15 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त प्रेमलाल पुत्र मिठाईलाल निवासी अमचुर नेरुवा तथा धारा 323/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रम्मू पुत्र पाली निवासी छेरिया खुर्द थाना पहाड़ी चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी
2. आरक्षी कृष्ण कुमार
3. आरक्षी संजय पटेल

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अनिल सिंह व महिला आरक्षी स्वाती पाण्डेय द्वारा खोई हुई बच्ची आंचल उम्र 5 वर्ष को 02 घण्टे में बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

आज दिनांक 15.01.2021 को समय करीब 11 बजे सुबह श्रीमती लालमनी पत्नी श्रीकृष्ण निवासी ददरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि उनकी 05 वर्षीय बच्ची आंचल कहीं खो गयी है मिल नहीं रही। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रभारी निरीक्षक मऊ ने उ0नि0 श्री अनिल सिंह को बच्ची की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री अनिल सिंह एवं महिला आरक्षी स्वाती पाण्डेय द्वारा कड़ी मेहनत कर बच्ची को समय करीब 01 बजे कस्बा मऊ से बरामद कर उसके पिता श्रीकृष्ण व माता श्रीमती लालमनी के सुपुर्द किया गया। इस प्रकार बच्ची को मात्र 02 घण्टे में सकुशल बरामद किया गया जिससे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिये भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 15.02.2021 एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा ट्राफिक चौराहा, एलआईसी चौराहा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानु बाबा मेले में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा एसबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।